

120 किलो नकली मावा और मिल्क केक पकड़ा: नागपुर से आया माल लेकर सांवलिया जी जा रहा था दुकानदार, फूड डिपार्टमेंट ने किया नष्ट

चित्तौड़गढ़



पुलिस ने युवक को डिटेन कर लिया और खाद्य विभाग की टीम ने नकली मावा बर्फी और मिल्क केक नष्ट कर दिया।

जिले की भदोसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी में एक युवक को नकली मावा और मिल्क केक के साथ पकड़ा है। पुलिस ने जब्त किए गए नकली मावा, बर्फी और मिल्क केक को नष्ट कर दिया है। पुलिस की पकड़ में आए युवक की मंडफिया के सांवरिया जी में एक दुकान है। उसने नागपुर से मावा और मिल्क केक मंगवाया था। बस चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड पर आई थी, जहां माल उतारकर वैन में सांवलिया जी लेकर जा रहा था।

थानाधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान एक मारुति वैन को चेक करने पर उसमें नकली मावा, बर्फी और मिल्क केक मिला। इस बारे में ड्राइवर मधु सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपुरोहित निवासी लूणी (जोधपुर) से पूछताछ की तो वह काफी घबरा गया था। पूछताछ में मधु सिंह ने बताया कि इसमें 60 किलो मावा, बर्फी और 60 किलो मिल्क केक है, जो उसने नागपुर से बस से मंगवाया है।



फूड इंस्पेक्टर ने माल में सिंथेटिक केमिकल मिक्स होने का अंदेशा जताया है और सैंपल लेकर उदयपुर लेबोरेटरी में भिजवाया है।

मिल्क केक और मावा में सिंथेटिक केमिकल होने का अंदेशा

पुलिस ने मिलावट होने के शक पर फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार सिहाग को मौके पर बुलाया। टीम ने मौके पर चेक किया तो माल नकली पाया गया। महेश कुमार सिहाग ने बताया कि मिल्क केक दूध और चीनी से बनता है, लेकिन इसमें मिल्क पाउडर और सोयाबीन मिक्स था। इसी तरह मावा बर्फी में भी मिल्क पाउडर और सोयाबीन मिक्स था। फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार सिहाग ने माल में सिंथेटिक केमिकल मिक्स होने का अंदेशा जताया है और दोनों के सैंपल लेकर उदयपुर लेबोरेटरी में भिजवाया है। पुलिस ने मघ सिंह को डिटेन कर लिया और खाद्य विभाग की टीम ने 120 किलो का नकली मावा बर्फी और मिल्क केक नष्ट कर दिया।

गाड़ी पंक्चर हुई तो पकड़ा गया नकली माल

मघ सिंह राजपुरोहित वैन में माल लेकर सांवलिया जी जा रहा था, लेकिन भदेसर के पास उसके गाड़ी पंक्चर हो गई। इस वजह से वह भदेसर में रुक कर अपनी गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जब मदद के लिए पूछताछ करने गई तो मघ सिंह घबरा गया। उसकी घबराहट देखकर पुलिस ने वैन की तलाशी ली और नकली माल पकड़ा गया।

Source:

<https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bhilwara/chittorgarh/news/fake-goods-were-caught-when-the-car-was-punctured-120-kg-of-goods-destroyed-129351057.html>